



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072025-264381
CG-DL-E-04072025-264381

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2934]
No. 2934]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 4, 2025/आषाढ़ 13, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 4, 2025/ASHADHA 13, 1947

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2025

का.आ. 3001(अ).— भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का. आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 और का. आ. 5249(अ) तारीख 11 नवम्बर, 2022 के साथ पठित औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3), (4) और (5) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता, इकाई (यूनिट) और विनिर्माता और विपणन कंपनियों के नाम सहित स्तंभ(2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में से प्रत्येक की, वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है;

सारणी

| क्र. सं. | दवाइयाँ | प्रबलता | इकाई | विनिर्माता और विपणन कंपनी | खुदरा मूल्य (रु.) |
|----------|---|---|---------------|--|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लैवुलैनेट गोली | प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में शामिल हैं: एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट आईपी एमोक्सिसिलिन 875 मिलीग्राम के बराबर पोटेशियम क्लैवुलैनेट डाइलुटेड आईपी क्लैवुलैनिक एसिड 125 मिलीग्राम के बराबर | 1 गोली | मेसर्स मेडीसेफ फार्मा / मेसर्स कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | 41.04 |
| 2 | एस्पिरिन गैस्ट्रो-प्रतिरोधी और एटोरवास्टेटिन कैप्सूल | प्रत्येक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में शामिल हैं: एस्पिरिन आईपी 75 मिलीग्राम (गैस्ट्रो-प्रतिरोधी पेलेट्स के रूप में) एटोरवास्टेटिन कैल्शियम आईपी एटोरवास्टेटिन 10 मिलीग्राम के बराबर (पेलेट्स के रूप में) | 1 कैप्सूल | मेसर्स सिनोकेम फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड / मेसर्स अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड | 3.65 |
| 3 | बुडेसोनाइड, ग्लाइकोपाइरोनियम और फॉर्मेटेरोल फ्यूमरेट डाइहाइड्रेट इनहेलेशन | प्रत्येक प्रवर्तन में शामिल हैं: बुडेसोनाइड आईपी 200 एमसीजी ग्लाइकोपाइरोनियम ब्रोमाइड पीएच. यूरो. के बराबर से ग्लाइकोपाइरोनियम 12.5 एमसीजी फॉर्मेटेरोल फ्यूमरेट डाइहाइड्रेट आईपी 6 एमसीजी | 1 मीटर्ड डोज़ | मेसर्स ल्यूपिन लिमिटेड | 6.11 |
| 4 | सेफिक्साइम ओरल सस्पेंशन | पुनर्गठित सस्पेंशन के प्रत्येक 5 मिलीलीटर में शामिल हैं: सेफिक्साइम आईपी सेफिक्साइम एनहाइड्रस 200 मिलीग्राम के बराबर | 1 मिली | मेसर्स आल्प्स कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड/ मेसर्स गल्फा लैबोरेटरीज लिमिटेड | 3.72 |
| 5 | सेफिट्राएक्सोन, डिसेडियम एडेटे और सुलबैक्टम | प्रत्येक वायल में शामिल हैं: सेफिट्राएक्सोन सोडियम आईपी | 1 वायल | मैसर्स प्रोटेक टेलीलिंग्स/ | 515.57 |

| क्र. सं. | दवाइयाँ | प्रबलता | इकाई | विनिर्माता और विपणन कंपनी | खुदरा मूल्य (रु.) |
|----------|---|---|--------|--|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | पाउडर सोल्यूशंस इन्फ्यूजन के लिए | सेफ्ट्राएक्सोन 1000 मिलीग्राम के बराबर, डिसोडियम एडेटे आईपी 37 मिलीग्राम, सुलबैक्टम सोडियम आईपी सुलबैक्टम 500 मिलीग्राम के बराबर | | मैसर्स टाईकेम प्राइवेट लिमिटेड | |
| 6 | सेफ्ट्राएक्सोन, डिसोडियम एडेटे और सुलबैक्टम पाउडर सोल्यूशंस इन्फ्यूजन के लिए | प्रत्येक वायल में शामिल हैं: सेफ्ट्राएक्सोन सोडियम आईपी सेफ्ट्राएक्सोन 2000 मिलीग्राम के बराबर, डिसोडियम एडेटे आईपी 74 मिलीग्राम, सुलबैक्टम सोडियम आईपी सुलबैक्टम 1000 मिलीग्राम के बराबर | 1 वायल | मैसर्स प्रोटेक टेलीलिंक्स/ मैसर्स टाईकेम प्राइवेट लिमिटेड | 1036.60 |
| 7 | सेफ्ट्राएक्सोन, डिसोडियम एडेटे और सुलबैक्टम पाउडर सोल्यूशंस इन्फ्यूजन के लिए का कॉम्बीपैक | प्रत्येक कॉम्बी-पैक में शामिल हैं: (ए) सेफ्ट्राएक्सोन, डिसोडियम एडेटे और सुलबैक्टम पाउडर 1.5 ग्राम प्रत्येक वायल में शामिल हैं: सेफ्ट्राएक्सोन सोडियम आईपी सेफ्ट्राएक्सोन 1000 मिलीग्राम के बराबर डिसोडियम एडेटे आईपी 37 मिलीग्राम सुलबैक्टम सोडियम आईपी सुलबैक्टम 500 मिलीग्राम के बराबर (बी) इंजेक्शन के लिए स्टराइल पानी आईपी 10 मिलीलीटर प्रत्येक एम्पुल में शामिल हैं: इंजेक्शन के लिए पानी आईपी 10 मिलीलीटर | 1 वायल | मेसर्स बीडीआर फार्मास्यूटिकल्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड मेसर्स ब्लूक्रॉस लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड | 447.00 |
| 8 | सेफ्ट्राएक्सोन, डिसोडियम एडेटे और सुलबैक्टम पाउडर सोल्यूशंस इन्फ्यूजन के लिए का कॉम्बीपैक | प्रत्येक कॉम्बी-पैक में शामिल हैं: (ए) सेफ्ट्राएक्सोन, डिसोडियम एडेटे और सुलबैक्टम पाउडर 3.0 ग्राम प्रत्येक वायल में शामिल हैं: सेफ्ट्राएक्सोन सोडियम आईपी | 1 वायल | मेसर्स बीडीआर फार्मास्यूटिकल्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड मेसर्स ब्लूक्रॉस | 626.00 |

| क्र. सं. | दवाइयाँ | प्रबलता | इकाई | विनिर्माता और विपणन कंपनी | खुदरा मूल्य (रु.) |
|----------|---|---|--------|--|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | सेफ्ट्राएक्सोन 2000 मिलीग्राम के बराबर डिसोडियम एडेटेड आईपी 74 मिलीग्राम सुलबैक्टम सोडियम आईपी सुलबैक्टम 1000 मिलीग्राम के बराबर (बी) इंजेक्शन के लिए स्ट्राइल पानी आईपी 20 मिलीलीटर प्रत्येक एम्पुल में शामिल हैं: इंजेक्शन के लिए पानी आईपी 20 मिलीलीटर | | लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड | |
| 9 | सेफुरोक्साइम एक्सेटिल और पोटेशियम क्लैवुलैनेट गोली | प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में शामिल हैं: सेफुरोक्साइम एक्सेटिल आईपी सेफुरोक्साइम 500 मिग्रा के बराबर, पोटेशियम क्लैवुलैनेट डाएलूटेड आईपी क्लैवुलैनेट एसिड 125 मिग्रा | 1 गोली | मेसर्स हेटेरो लैब्स लिमिटेड/ मेसर्स ट्रोइका फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | 61.84 |
| 10 | सिप्रोफ्लोक्सासिन और डेक्सामेथासोन आई/ईयर ड्रॉप्स | सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी सिप्रोफ्लोक्सासिन 0.3% डब्लू/वी के बराबर, डेक्सामेथासोन आईपी 0.1% डब्लू/वी, बेज़ाल्कोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन आईपी 0.02 % डब्लू/वी (प्रिज़र्वेटिव) | 1 मिली | मेसर्स हनुचेम लैबोरेटरीज/ मेसर्स एरिस्टो लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड | 2.47 |
| 11 | क्लेरिथ्रोमाइसिन गोली, एसोमेप्राज़ोल गोली और एमोक्सिसिलिन गोली का कॉम्बिकिट | संरचना: प्रत्येक स्ट्रिप में शामिल हैं: (ए) क्लेरिथ्रोमाइसिन गोली आईपी 2 गोली प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में शामिल हैं: क्लेरिथ्रोमाइसिन आईपी 500 मिलीग्राम (बी) एसोमेप्राज़ोल गोली आईपी 2 गोली प्रत्येक एंटरिक कोटेड गोली में शामिल हैं: एसोमेप्राज़ोल मैग्नीशियम ट्राइहाइड्रेट | 1 गोली | मेसर्स मलिक लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड / मेसर्स टोरेट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | 162.52 |

| क्र. सं. | दवाइयाँ | प्रबलता | इकाई | विनिर्माता और विपणन कंपनी | खुदरा मूल्य (रु.) |
|----------|---|--|--------|--|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | आईपी एसोमेप्राज़ोल 40 मिलीग्राम के बराबर (सी) एमोक्सिसिलिन गोली यूएसपी 2 गोली प्रत्येक फिल्म कोटेड गोली में शामिल हैं: एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट आईपी एमोक्सिसिलिन 1000 मिलीग्राम के बराबर | | | |
| 12 | एम्पाग्लिफ्लोजिन और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड गोली | प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में शामिल है: एम्पाग्लिफ्लोजिन 12.5 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 500 मिलीग्राम | 1 गोली | मेसर्स मेडिफोर्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड/ मेसर्स मैनकाइंड प्राइम लैब्स प्राइवेट लिमिटेड | 18.10 |
| 13 | एम्पाग्लिफ्लोजिन और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (ईआर) गोली | प्रत्येक फिल्म लेपित द्विस्तरीय गोली में शामिल हैं: एम्पाग्लिफ्लोजिन 12.5 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 1000 मिलीग्राम (विस्तारित रिलीज के रूप में) | 1 गोली | मेसर्स प्योर एंड क्योर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड/ मेसर्स ब्लू क्रॉस लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड | 10.80 |
| 14 | एम्पाग्लिफ्लोजिन और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड गोली | प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में शामिल है: एम्पाग्लिफ्लोजिन 12.5 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 1000 मिलीग्राम | 1 गोली | मेसर्स मेडिफोर्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड/ मेसर्स मैनकाइंड प्राइम लैब्स प्राइवेट लिमिटेड | 19.64 |
| 15 | एम्पाग्लिफ्लोजिन, लिनाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन (ईआर) गोली | प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में शामिल हैं: एम्पाग्लिफ्लोजिन 10 मिलीग्राम, लिनाग्लिप्टिन 5 मिलीग्राम, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 1000 मिलीग्राम (विस्तारित रिलीज के रूप में) | 1 गोली | मेसर्स प्योर एंड क्योर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड / मेसर्स एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड | 16.97 |

| क्र. सं. | दवाइयाँ | प्रबलता | इकाई | विनिर्माता और विपणन कंपनी | खुदरा मूल्य (रु.) |
|----------|--|---|--------|--|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 16 | एम्पाग्लिफ्लोजिन, लिनाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन (ईआर) गोली | प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में शामिल हैं: एम्पाग्लिफ्लोजिन 25 मिलीग्राम, लिनाग्लिप्टिन 5 मिलीग्राम, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 1000 मिलीग्राम (विस्तारित रिलीज के रूप में) | 1 गोली | मेसर्स प्योर एंड क्योर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड / मेसर्स एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड | 20.54 |
| 17 | सिटग्लिप्टिन, ग्लिमेपिराइड और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड गोलियाँ | प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में शामिल हैं: ग्लिमेपिराइड आईपी 1 मिलीग्राम सिटग्लिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी सिटग्लिप्टिन 50 मिलीग्राम के बराबर मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 500 मिलीग्राम | 1 गोली | मेसर्स एक्सेमेड फार्मास्यूटिकल्स / मेसर्स टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | 12.98 |
| 18 | सिटग्लिप्टिन, ग्लिमेपिराइड और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड गोलियाँ | प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में शामिल हैं: सिटग्लिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी सिटग्लिप्टिन 50 मिलीग्राम के बराबर ग्लिमेपिराइड आईपी 1 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 500 मिलीग्राम | 1 गोली | मेसर्स एक्सेमेड फार्मास्यूटिकल्स/ मेसर्स माइक्रो लैब्स लिमिटेड | 12.00 |
| 19 | सिटग्लिप्टिन, ग्लिमेपिराइड और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड गोलियाँ | प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में शामिल हैं: सिटग्लिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी सिटग्लिप्टिन 50 मिलीग्राम के बराबर ग्लिमेपिराइड आईपी 1 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 500 मिलीग्राम | 1 गोली | मेसर्स एक्सेमेड फार्मास्यूटिकल्स/ मेसर्स इंटैस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | 12.98 |

| क्र. सं. | दवाइयाँ | प्रबलता | इकाई | विनिर्माता और विपणन कंपनी | खुदरा मूल्य (रु.) |
|----------|--|--|--------|--|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 20 | सिटैग्लिप्टिन, ग्लिमेपिराइड और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड गोली | प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में शामिल हैं: सिटैग्लिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी सिटैग्लिप्टिन 50 मिलीग्राम के बराबर, ग्लिमेपिराइड आईपी 1 मिलीग्राम, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 500 मिलीग्राम | 1 गोली | मेसर्स एक्सेमेड फार्मास्यूटिकल्स/ मेसर्स एरिस लाइफसाइंसेज लिमिटेड | 12.98 |
| 21 | सिटैग्लिप्टिन, ग्लिमेपिराइड और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड गोली | प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में शामिल हैं: सिटैग्लिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी सिटैग्लिप्टिन 50 मिलीग्राम के बराबर, ग्लिमेपिराइड आईपी 1 मिलीग्राम, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 500 मिलीग्राम | 1 गोली | मेसर्स एक्सेमेड फार्मास्यूटिकल्स/ मेसर्स ल्यूपिन लिमिटेड | 12.98 |
| 22 | सिटैग्लिप्टिन, ग्लिमेपिराइड और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड गोली | प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में शामिल है: सिटैग्लिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी सिटैग्लिप्टिन 50 मिलीग्राम के बराबर ग्लिमेपिराइड आईपी 1 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 500 मिलीग्राम | 1 गोली | मेसर्स एक्सेमेड फार्मास्यूटिकल्स/ मेसर्स मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड | 12.98 |
| 23 | सिटैग्लिप्टिन, ग्लिमेपिराइड और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड गोलियाँ | प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में शामिल हैं: सिटैग्लिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी सिटैग्लिप्टिन 50 मिलीग्राम के बराबर ग्लिमेपिराइड आईपी 2 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 500 मिलीग्राम | 1 गोली | मेसर्स एक्सेमेड फार्मास्यूटिकल्स/ मेसर्स टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | 14.66 |
| 24 | सिटैग्लिप्टिन, ग्लिमेपिराइड और | प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में शामिल हैं: | 1 गोली | मेसर्स एक्सेमेड फार्मास्यूटिकल्स/ | 14.00 |

| क्र. सं. | दवाइयाँ | प्रबलता | इकाई | विनिर्माता और विपणन कंपनी | खुदरा मूल्य (रु.) |
|----------|--|---|--------|---|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड गोलियाँ | सिटारिलिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी सिटारिलिप्टिन 50 मिलीग्राम के बराबर ग्लिमेपिराइड आईपी 2 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 500 मिलीग्राम | | मेसर्स माइक्रो लैब्स लिमिटेड | |
| 25 | सिटारिलिप्टिन, ग्लिमेपिराइड और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड गोलियाँ | प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में शामिल हैं: सिटारिलिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी सिटारिलिप्टिन 50 मिलीग्राम के बराबर ग्लिमेपिराइड आईपी 2 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 500 मिलीग्राम | 1 गोली | मेसर्स एक्सेमेड फार्मास्यूटिकल्स/ मेसर्स इंट्रास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | 14.66 |
| 26 | सिटारिलिप्टिन, ग्लिमेपिराइड और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड गोली | प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में शामिल हैं: सिटारिलिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी सिटारिलिप्टिन 50 मिलीग्राम के बराबर, ग्लिमेपिराइड आईपी 2 मिलीग्राम, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 500 मिलीग्राम | 1 गोली | मेसर्स एक्सेमेड फार्मास्यूटिकल्स/ मेसर्स ल्यूपिन लिमिटेड | 14.66 |
| 27 | सिटारिलिप्टिन, ग्लिमेपिराइड और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड गोली | प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में शामिल है: सिटारिलिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी सिटारिलिप्टिन 50 मिलीग्राम के बराबर ग्लिमेपिराइड आईपी 2 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 500 मिलीग्राम | 1 गोली | मेसर्स एक्सेमेड फार्मास्यूटिकल्स/ मेसर्स मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड | 14.66 |

| क्र. सं. | दवाइयाँ | प्रबलता | इकाई | विनिर्माता और विपणन कंपनी | खुदरा मूल्य (रु.) |
|----------|--|---|-----------|--|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 28 | इट्राकोनाजोल कैप्सूल (सुप्रा- बायोएवेलेबल फॉर्मूलेशन) | प्रत्येक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में शामिल है: इट्राकोनाजोल आईपी 65 मिलीग्राम | 1 कैप्सूल | मेसर्स रेवेनभेल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड/ मेसर्स इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | 11.45 |
| 29 | लिवोफ्लॉक्सासिन इन्फ्यूजन | प्रत्येक 100 मिलीलीटर में शामिल है: लेवोफ्लॉक्सासिन हेमिहाइड्रेट आईपी लेवोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम के बराबर, डेक्सट्रोज़ (एनहाइड्रस) आईपी 5% डब्लू/वी | 1 मिली | मेसर्स एक्सा पैरेंटरल्स लिमिटेड/ मेसर्स एरिस्टो लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड | 1.46 |
| 30 | लाइनज़ोलिड इंजेक्शन | प्रत्येक 100 मिलीलीटर में शामिल है: लाइनज़ोलिड आईपी 200 मिलीग्राम, डेक्सट्रोज़ एनहाइड्रस आईपी 5% डब्लू/वी | 1 मिली | मेसर्स अमंता हेल्थकेयर लिमिटेड / मेसर्स कोरोना रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड | 1.60 |
| 31 | मेथिलप्रेडनिसोलोन गोलियाँ | प्रत्येक बिना लेपित गोली में शामिल है: मेथिलप्रेडनिसोलोन आईपी 8 मिलीग्राम | 1 गोली | मेसर्स इनोवा कैपटैब लिमिटेड / मेसर्स ट्रोइका फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | 5.22 |
| 32 | मोक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप्स | मोक्सीफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी मोक्सीफ्लोक्सासिन 0.5% डब्लू/वी के बराबर, बेंजालकोनियम क्लोराइड सोल्यूशंस आईपी 0.02% वी/वी (प्रिज़र्वेटिव के रूप में) स्टराईल एकवाईस बफरर्ड वहीकल | 1 मिली | मेसर्स हनुचेम लैबोरेटरीज / मेसर्स एरिस्टो लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड | 36.26 |

| क्र. सं. | दवाइयाँ | प्रबलता | इकाई | विनिर्माता और विपणन कंपनी | खुदरा मूल्य (रु.) |
|----------|--|--|---------|--|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 33 | मायो-इनोसिटोल, डी-चिरो इनोसिटोल और विटामिन डी3 पाउडर | प्रत्येक 5 ग्राम शेष में शामिल हैं: विटामिन डी 3 (स्थिर रूप) 1000 आईयू, मायो-इनोसिटोल आईपी 2000 मिलीग्राम, डी-चिरो इनोसिटोल 50 मिलीग्राम | 1 ग्राम | मेसर्स सेफ्टैब लाइफ साइंस/ मेसर्स कोरोना रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड | 9.02 |
| 34 | पैरासिटामोल द्विपरत निरंतर रिलीज गोलियाँ | प्रत्येक बिना लेपित द्विपरत निरंतर रिलीज गोली में शामिल हैं: पैरासिटामोल आईपी (तत्काल रिलीज के रूप में) 300 मिलीग्राम पैरासिटामोल आईपी (निरंतर रिलीज के रूप में) 700 मिलीग्राम | 1 गोली | मेसर्स प्योर एंड क्योर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड/ मेसर्स ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन एशिया प्राइवेट लिमिटेड | 4.71 |
| 35 | पैरासिटामोल ओरल सस्पेंशन | प्रत्येक 5 मिलीलीटर में शामिल है: पैरासिटामोल आईपी 500 मिलीग्राम | 1 मिली | मेसर्स नक्सपार फार्मा प्राइवेट लिमिटेड/ मेसर्स माइक्रो लैब्स लिमिटेड | 0.66 |
| 36 | पैरासिटामोल ओरल सस्पेंशन | प्रत्येक 5 मिलीलीटर में शामिल है: पैरासिटामोल आईपी 500 मिली ग्राम | 1 मिली | मेसर्स प्योर एंड क्योर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड/ मेसर्स एल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड | 0.66 |
| 37 | इबुप्रोफेन और पैरासिटामोल सस्पेंशन | प्रत्येक 5 मिलीलीटर में शामिल हैं: इबुप्रोफेन आईपी 100 मिलीग्राम पैरासिटामोल आईपी 162.5 मिलीग्राम | 1 मिली | मेसर्स मैस्कॉट हेल्थ सीरीज प्राइवेट लिमिटेड/ मेसर्स एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | 0.53 |
| 38 | मेफेनामिक एसिड और पैरासिटामोल सस्पेंशन | प्रत्येक 5 मिलीलीटर में शामिल हैं: मेफेनामिक एसिड आईपी 100 | 1 मिली | मेसर्स मैस्कॉट हेल्थ सीरीज प्राइवेट लिमिटेड/ | 0.94 |

| क्र. सं. | दवाइयाँ | प्रबलता | इकाई | विनिर्माता और विपणन कंपनी | खुदरा मूल्य (रु.) |
|----------|---|---|--------|---|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | मिलीग्राम पैरासिटामोल आईपी 250 मिलीग्राम | | मेसर्स एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | |
| 39 | पैरासिटामोल, फेनिलफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट गोली | प्रत्येक बिना लेपित गोली में शामिल हैं: पैरासिटामोल आईपी 500 मिलीग्राम फेनिलफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 10 मिलीग्राम क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट आईपी 2 मिलीग्राम | 1 गोली | मेसर्स ईस्ट अफ्रीकन (इंडिया) ओवरसीज / मेसर्स एरिस्टो लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड | 5.25 |
| 40 | पोलमैकोक्सीब और पैरासिटामोल गोली | प्रत्येक बिना लेपित गोली में शामिल हैं: पोलमैकोक्सिब आईएच 2 मिलीग्राम, पैरासिटामोल आईपी 325 मिलीग्राम | 1 गोली | मेसर्स हेटेरो लैब्स लिमिटेड / मेसर्स इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | 15.39 |
| 41 | एसीक्लोफेनाक, पैरासिटामोल और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन गोली | प्रत्येक एंटरिक कोटेड गोली में निम्नलिखित शामिल हैं: प्रोटियोलिटिक एंजाइम ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन लगभग 6:1 के अनुपात में और एंजाइमेटिक गतिविधि प्रदान करता है 1,50,000 आर्मर इकाइयों के बराबर एसीक्लोफेनाक आईपी 100 मिलीग्राम पैरासिटामोल आईपी 325 मिलीग्राम | 1 गोली | मेसर्स एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड / मेसर्स एरिस्टो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड | 15.18 |
| 42 | इंजेक्शन के लिए ट्रैस्टुजुमैब | प्रत्येक लियोफिलाइज्ड वायल में निम्नलिखित शामिल हैं: ट्रैस्टुजुमैब (इन हाउस) (375 मिलीग्राम) - α , α ट्रेहलोस डाइहाइड्रेट पीएच यूरो. (340.91 मिलीग्राम) - एल-हिस्टिडाइन एचसीएल मोनोहाइड्रेट पीएच यूरो. (8.44 मिलीग्राम) - एल-हिस्टिडाइन | 1 वायल | मेसर्स रिलायंस लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड | 11966.64 |

| क्र. सं. | दवाइयाँ | प्रबलता | इकाई | विनिर्माता और विपणन कंपनी | खुदरा मूल्य (रु.) |
|----------|---|---|-----------|--|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | पीएच यूरो. (5.45 मिलीग्राम) - पॉलीसोबैट 20 आईपी (1.53 मिलीग्राम) | | | |
| 43 | विटामिन डी3 (कोलेकैल्सीफेरॉल) ड्रॉप्स | प्रत्येक मिलीलीटर में शामिल है: कोलेकैल्सीफेरोल (विटामिन डी3) आईपी 800 आईयू | 1 मिली | मेसर्स इंडकेमी हेल्थ स्पेशलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड | 6.11 |
| 44 | ज़ोलपिडेम टार्ट्रेट और मेलाटोनिन गोलिएँ | प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में शामिल हैं: ज़ोलपिडेम टार्ट्रेट आईपी 5 मिलीग्राम मेलाटोनिन बीपी 3 मिलीग्राम | 1 गोली | मेसर्स विंडलास बायोटेक लिमिटेड/ मेसर्स इंटॉस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | 6.62 |
| 45 | फिनाइलफ्रीन एचसीएल, क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट, बोरिक एसिड और हाइड्रोक्सीप्रोपाइलमेथिल सेल्यूलोज आई ड्रॉप्स | संरचना: फिनाइलफ्रीन एचसीएल आईपी 0.12 % डब्लू/वी क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट आईपी 0.2 % डब्लू/वी बोरिक एसिड आईपी 1.25 % डब्लू/वी हाइड्रोक्सीप्रोपाइलमिथाइल सेल्यूलोज आईपी 0.3 % डब्लू/वी बेंजालकोनियम क्लोराइड आईपी 0.01 % डब्लू/वी | 1 मिली | मेसर्स अप्पासामी ओकुलर डिवाइसेज प्राइवेट लिमिटेड/ मेसर्स इंटॉस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | 7.63 |
| 46 | मिथाइलकोबालामिन, अल्फा लिपोइक एसिड, पाइरिडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड और फोलिक एसिड कैप्सूल | प्रत्येक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में शामिल हैं: मिथाइलकोबालामिन आईपी 1500 एमसीजी अल्फा लिपोइक एसिड आईपी 100 एमजी पाइरिडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 3 मिली ग्राम फोलिक एसिड आईपी 1.5 मिली ग्राम | 1 कैप्सूल | मेसर्स ईस्ट अफ्रीकन (इंडिया) ओवरसीज/ मेसर्स सॉफ्टडील फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड | 14.64 |
| 47 | ज़ोलपिडेम टार्ट्रेट और मेलाटोनिन गोलिएँ | प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में शामिल हैं: ज़ोलपिडेम टार्ट्रेट आईपी 10 | 1 गोली | मेसर्स विंडलास बायोटेक लिमिटेड/ मेसर्स इंटॉस | 9.02 |

| क्र. सं. | दवाइयाँ | प्रबलता | इकाई | विनिर्माता और विपणन कंपनी | खुदरा मूल्य (रु.) |
|----------|---|--|-----------------|--|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | मिलीग्राम मेलाटोनिन बीपी 3 मिलीग्राम | | फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | |
| 48 | मायो-इनोसिटोल, डी-चिरो इनोसिटोल और विटामिन डी3 पाउडर | प्रत्येक 5 ग्राम शेष में शामिल हैं: विटामिन डी3 आईपी (पानी में घुलनशील) 1000 आईयू एमयो-इनोसिटोल आईपी 2000 मिली ग्राम डी-चिरो इनोसिटोल 50 मिली ग्राम | 1 ग्राम | मेसर्स सेफ्टैब लाइफ साइंस / मेसर्स सन फार्मा लैबोरेटरीज लिमिटेड | 9.02 |
| 49 | मेटोप्रोलोल सक्सीनेट (ईआर), एम्लोडिपिन और टेल्मिसर्टन गोली | प्रत्येक फिल्म लेपित द्विस्तरीय गोली में निम्नलिखित शामिल हैं: मेटोप्रोलोल सक्सीनेट आईपी 23.75 मिग्रा. मेटोप्रोलोल टार्ट्रेट 25 मिग्रा. (विस्तारित रिलीज के रूप में) के बराबर, एम्लोडिपिन बेसिलेट आईपी एम्लोडिपिन 5 मिग्रा. के बराबर, टेल्मिसर्टन आईपी 40 मिग्रा. | 1 गोली | मेसर्स अजंता फार्मा लिमिटेड | 12.96 |
| 50 | डीहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरोन (डीएचईए)(माइक्रोनाइज्ड) और फोलिक एसिड कैप्सूल | प्रत्येक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में शामिल हैं: डीहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरोन (डीएचईए) (माइक्रोनाइज्ड) 25 मिलीग्राम, फोलिक एसिड आईपी 1.5 मिलीग्राम | 1 कैप्सूल | मेसर्स एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड/ मेसर्स सन फार्मा लैबोरेटरीज लिमिटेड | 14.08 |
| 51 | ग्लाइकोपाइरोनियम और फॉर्मेटोरोल फ्यूमरेट इनहेलर | प्रत्येक क्रिया प्रदान करता है: ग्लाइकोपाइरोनियम (ग्लाइकोपाइरोलेट आईपी के रूप में) 12.5 एमसीजी फॉर्मेटोरोल फ्यूमरेट डाइहाइड्रेट आईपी 6 एमसीजी | 1 मीटर खुराक | मेसर्स सिप्ला लिमिटेड | 4.08 |
| 52 | एम्पाग्लिफ्लोजिन, सीटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन | प्रत्येक फिल्म लेपित द्विपरत गोली में शामिल हैं: एम्पाग्लिफ्लोजिन 10 मिलीग्राम, | 1 गोली | मेसर्स एक्सेमेड फार्मास्यूटिकल्स / | 31.60 |

| क्र. सं. | दवाइयाँ | प्रबलता | इकाई | विनिर्माता और विपणन कंपनी | खुदरा मूल्य (रु.) |
|----------|--|---|--------|---|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | हाइड्रोक्लोराइड (ईआर) गोली | सिटारिलिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी सिटारिलिप्टिन 100 मिलीग्राम के बराबर, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 1000 मिलीग्राम (विस्तारित रिलीज के रूप में) | | मेसर्स कोरोना रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड | |
| 53 | एम्पाग्लिफ्लोजिन, सिटारिलिप्टिन और मेटफॉर्मिन (ईआर) गोलियाँ | प्रत्येक फिल्म लेपित बिलेयर गोली में शामिल हैं: एम्पाग्लिफ्लोजिन 10 मिलीग्राम सिटारिलिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी सिटारिलिप्टिन 100 मिलीग्राम के बराबर मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी (विस्तारित रिलीज के रूप में) 1000 मिलीग्राम | 1 गोली | मेसर्स एक्सेमेड फार्मास्यूटिकल्स / मेसर्स ज़ाइडस हेल्थकेयर लिमिटेड | 31.60 |
| 54 | एम्पाग्लिफ्लोजिन, सिटारिलिप्टिन और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (ईआर) गोली | प्रत्येक फिल्म लेपित बाइलेयर गोली में शामिल हैं: एम्पाग्लिफ्लोजिन 10 मिलीग्राम सिटारिलिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी सिटारिलिप्टिन 100 मिलीग्राम के बराबर मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी (विस्तारित रिलीज के रूप में) 1000 मिलीग्राम | 1 गोली | मेसर्स एक्सेमेड फार्मास्यूटिकल्स / मेसर्स अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड | 31.60 |
| 55 | एम्पाग्लिफ्लोजिन, सिटारिलिप्टिन और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (ईआर) गोली | प्रत्येक फिल्म लेपित बाइलेयर गोली में शामिल हैं: एम्पाग्लिफ्लोजिन 10 मिलीग्राम सिटारिलिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी सिटारिलिप्टिन 100 मिलीग्राम के बराबर मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी (विस्तारित रिलीज के रूप में) 1000 मिलीग्राम | 1 गोली | मेसर्स एक्सेमेड फार्मास्यूटिकल्स / मेसर्स ल्यूपिन लिमिटेड | 25.00 |

| क्र. सं. | दवाइयाँ | प्रबलता | इकाई | विनिर्माता और विपणन कंपनी | खुदरा मूल्य (रु.) |
|----------|--|---|--------|---|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 56 | एम्पाग्लिफ्लोजिन, सीटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (ईआर) गोली | प्रत्येक फिल्म लेपित बाइलेयर गोली में शामिल हैं: एम्पाग्लिफ्लोजिन 10 मिलीग्राम सिटाग्लिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी सिटाग्लिप्टिन 100 मिलीग्राम के बराबर मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी (विस्तारित रिलीज के रूप में) 1000 मिलीग्राम | 1 गोली | मेसर्स एक्सेमेड फार्मास्यूटिकल्स / मेसर्स टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | 22.50 |
| 57 | एम्पाग्लिफ्लोजिन, सीटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (ईआर) गोली | प्रत्येक फिल्म लेपित बाइलेयर गोली में शामिल हैं: एम्पाग्लिफ्लोजिन 10 मिलीग्राम सिटाग्लिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी सिटाग्लिप्टिन 100 मिलीग्राम के बराबर मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी (विस्तारित रिलीज के रूप में) 1000 मिलीग्राम | 1 गोली | मेसर्स एक्सेमेड फार्मास्यूटिकल्स / मेसर्स मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड | 31.60 |
| 58 | एम्पाग्लिफ्लोजिन, सीटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (ईआर) गोली | प्रत्येक फिल्म लेपित बाइलेयर गोली में शामिल हैं: एम्पाग्लिफ्लोजिन 10 मिलीग्राम सिटाग्लिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी सिटाग्लिप्टिन 100 मिलीग्राम के बराबर मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी (विस्तारित रिलीज के रूप में) 1000 मिलीग्राम | 1 गोली | मेसर्स एक्सेमेड फार्मास्यूटिकल्स / मेसर्स इंटस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | 25.00 |
| 59 | एम्पाग्लिफ्लोजिन, सीटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (ईआर) गोली | प्रत्येक फिल्म लेपित द्विपरत गोली में शामिल हैं: एम्पाग्लिफ्लोजिन 10 मिलीग्राम, सिटाग्लिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी सिटाग्लिप्टिन 100 मिलीग्राम के बराबर, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 1000 | 1 गोली | मेसर्स एक्सेमेड फार्मास्यूटिकल्स / मेसर्स एरिस लाइफसाइंसेज लिमिटेड | 31.60 |

| क्र. सं. | दवाइयाँ | प्रबलता | इकाई | विनिर्माता और विपणन कंपनी | खुदरा मूल्य (रु.) |
|----------|---|--|--------|--|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | मिलीग्राम (विस्तारित रिलीज के रूप में) | | | |
| 60 | एम्पाग्लिफ्लोजिन, सीटग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (ईआर) गोली | प्रत्येक फिल्म लेपित द्विपरत गोली में शामिल हैं: एम्पाग्लिफ्लोजिन 10 मिलीग्राम, सीटग्लिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी सीटग्लिप्टिन 100 मिलीग्राम के बराबर, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 1000 मिलीग्राम (विस्तारित रिलीज के रूप में) | 1 गोली | मेसर्स एक्सेमेड फार्मास्यूटिकल्स / मेसर्स सिप्ला लिमिटेड | 22.00 |
| 61 | एम्पाग्लिफ्लोजिन, सीटग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (ईआर) गोली | प्रत्येक फिल्म लेपित बाइलेयर गोली में शामिल हैं: एम्पाग्लिफ्लोजिन 10 मिलीग्राम सीटग्लिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी सीटग्लिप्टिन 100 मिलीग्राम के बराबर मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी (विस्तारित रिलीज के रूप में) 1000 मिलीग्राम | 1 गोली | मेसर्स एक्सेमेड फार्मास्यूटिकल्स / मेसर्स सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 26.00 |
| 62 | एम्पाग्लिफ्लोजिन, सीटग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (ईआर) गोली | प्रत्येक फिल्म लेपित द्विपरत गोली में शामिल हैं: एम्पाग्लिफ्लोजिन 25 मिलीग्राम, सीटग्लिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी सीटग्लिप्टिन 100 मिलीग्राम के बराबर, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 1000 मिलीग्राम (विस्तारित रिलीज के रूप में) | 1 गोली | मेसर्स एक्सेमेड फार्मास्यूटिकल्स / मेसर्स सिप्ला लिमिटेड | 23.00 |
| 63 | एम्पाग्लिफ्लोजिन, सीटग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन | प्रत्येक फिल्म लेपित द्विपरत गोली में शामिल हैं: एम्पाग्लिफ्लोजिन 25 मिलीग्राम, | 1 गोली | मेसर्स एक्सेमेड फार्मास्यूटिकल्स / मेसर्स एरिस | 35.19 |

| क्र. सं. | दवाइयाँ | प्रबलता | इकाई | विनिर्माता और विपणन कंपनी | खुदरा मूल्य (रु.) |
|----------|--|--|--------|--|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | हाइड्रोक्लोराइड (ईआर) गोली | सिटारिलिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी सिटारिलिप्टिन 100 मिलीग्राम के बराबर, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 1000 मिलीग्राम (विस्तारित रिलीज के रूप में) | | लाइफसाइंसेज लिमिटेड | |
| 64 | एम्पाग्लिफ्लोजिन, सिटारिलिप्टिन और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (ईआर) गोली | प्रत्येक फिल्म लेपित बाइलेयर गोली में शामिल हैं: एम्पाग्लिफ्लोजिन 25मिलीग्राम सिटारिलिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी सिटारिलिप्टिन 100 मिलीग्राम के बराबर मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी (विस्तारित रिलीज के रूप में) 1000 मिलीग्राम | 1 गोली | मेसर्स एक्सेमेड फार्मास्यूटिकल्स / मेसर्स मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड | 35.19 |
| 65 | एम्पाग्लिफ्लोजिन, सिटारिलिप्टिन और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (ईआर) गोली | प्रत्येक फिल्म लेपित बाइलेयर गोली में शामिल हैं: एम्पाग्लिफ्लोजिन 25 मिग्रा सिटारिलिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी सिटारिलिप्टिन 100 मिग्रा के बराबर मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी (विस्तारित रिलीज के रूप में) 1000 मिग्रा | 1 गोली | मेसर्स एक्सेमेड फार्मास्यूटिकल्स / मेसर्स टोरेट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | 25.00 |
| 66 | एम्पाग्लिफ्लोजिन, सिटारिलिप्टिन और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (ईआर) गोली | प्रत्येक फिल्म लेपित बाइलेयर गोली में शामिल हैं: एम्पाग्लिफ्लोजिन 25 मिग्रा सिटारिलिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी सिटारिलिप्टिन 100 मिग्रा के बराबर मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी (विस्तारित रिलीज के रूप में) 1000 मिग्रा | 1 गोली | मेसर्स एक्सेमेड फार्मास्यूटिकल्स / मेसर्स सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 30.00 |

| क्र. सं. | दवाइयाँ | प्रबलता | इकाई | विनिर्माता और विपणन कंपनी | खुदरा मूल्य (रु.) |
|----------|--|--|--------|--|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 67 | एम्पाग्लिफ्लोजिन, सीटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (ईआर) गोली | प्रत्येक फिल्म लेपित बाइलेयर गोली में शामिल हैं: एम्पाग्लिफ्लोजिन 25 मिग्रा सिटाग्लिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी सिटाग्लिप्टिन 100 मिग्रा के बराबर मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी (विस्तारित रिलीज के रूप में) 1000 मिग्रा | 1 गोली | मेसर्स एक्सेमेड फार्मास्यूटिकल्स / मेसर्स इंटॉस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | 26.00 |
| 68 | एम्पाग्लिफ्लोजिन, सीटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (ईआर) गोली | प्रत्येक फिल्म लेपित बाइलेयर गोली में शामिल हैं: एम्पाग्लिफ्लोजिन 25मिलीग्राम सिटाग्लिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी सिटाग्लिप्टिन 100मिलीग्राम के बराबर मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी (विस्तारित रिलीज के रूप में) 1000मिलीग्राम | 1 गोली | मेसर्स एक्सेमेड फार्मास्यूटिकल्स / मेसर्स अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड | 34.00 |
| 69 | एम्पाग्लिफ्लोजिन, सीटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (ईआर) गोली | प्रत्येक फिल्म लेपित बाइलेयर गोली में शामिल हैं: एम्पाग्लिफ्लोजिन 25 मिग्रा सिटाग्लिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी सिटाग्लिप्टिन 100 मिग्रा के बराबर मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी (विस्तारित रिलीज के रूप में) 1000 मिग्रा | 1 गोली | मेसर्स एक्सेमेड फार्मास्यूटिकल्स / मेसर्स ल्यूपिन लिमिटेड | 30.00 |
| 70 | एम्पाग्लिफ्लोजिन, सीटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन (ईआर) गोलियाँ | प्रत्येक फिल्म लेपित बाइलेयर गोली में शामिल हैं: एम्पाग्लिफ्लोजिन 25 मिग्रा. सिटाग्लिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी सिटाग्लिप्टिन 100 मिग्रा. के बराबर, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड | 1 गोली | मेसर्स एक्सेमेड फार्मास्यूटिकल्स / मेसर्स ज़ाइडस हेल्थकेयर लिमिटेड | 35.19 |

| क्र. सं. | दवाइयाँ | प्रबलता | इकाई | विनिर्माता और विपणन कंपनी | खुदरा मूल्य (रु.) |
|----------|--|---|--------|--|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | आईपी (विस्तारित रिलीज के रूप में) 1000 मिग्रा. | | | |
| 71 | एम्पाग्लिफ्लोजिन, सिटैग्लिटिन और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (ईआर) गोली | प्रत्येक फिल्म लेपित बाइलेयर गोली में शामिल हैं: एम्पाग्लिफ्लोजिन 25 मिलीग्राम, सिटैग्लिटिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी सिटैग्लिटिन 100 मिलीग्राम के बराबर, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 1000 मिलीग्राम (विस्तारित रिलीज के रूप में) | 1 गोली | मेसर्स एक्सेमेड फार्मास्यूटिकल्स / मेसर्स कोरोना रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड | 35.19 |

नोट:

- (क) उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन के निर्माता अर्थात् जो “नई ड्रग” डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(1)(यू) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में वर्णित खुदरा कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है तो वे वस्तु एव सेवा कर को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म V में अधिसूचना की तारीख से एक मूल्य सूची एनपीपीए को आईपीडीएमएस के माध्यम से जारी करें तथा उसकी एक प्रति राज्य औषधि नियंत्रकों और विनिर्माता वितरकों को जारी करें।
- (घ) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के 24 (4) के अनुसार प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्श के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सुस्पष्ट भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को प्रदर्शित करेगा।
- (ङ) उल्लिखित खुदरा मूल्य केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसा कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग ऑथोरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कंपनियां जो अनुपालन करती हैं।

- (च) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती है तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (छ) इस आदेश में उपरोक्त तालिका के कॉलम (3) और (5) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में निर्दिष्ट विनिर्माण और विपणन कंपनियों की प्रबलता और नाम के साथ, उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट ऐसे फॉर्मूलेशन के खुदरा मूल्य के निर्धारण के परिणामस्वरूप, कॉलम (2), (3) और (5) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में यथा निर्दिष्ट उस विनिर्माण और विपणन कंपनियों के लिए निर्दिष्ट स्ट्रेंथ के साथ फॉर्मूलेशन के खुदरा मूल्य को निर्धारित करने वाले कोई मूल्य आदेश यदि इस अधिसूचना से पहले जारी किए गए हो, तो उसे इसका स्थान लिया माना जाएगा।

[पीएन/266/134/2025/एफ/फा. सं. 8(134)/2025/डीपी/एनपीपीए-डिवीजन-II]

महावीर सैनी, उप निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

ORDER

New Delhi, the 4th July, 2025

S.O. 3001(E).— In exercise of the powers conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 and S. O. 5249(E) dated 11th November, 2022 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA), hereby fixes, the price as specified in column (6) of the table herein below as the retail price, exclusive of Goods and Services Tax, if any, in relation to the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength, unit and name of manufacturer & marketing company, as specified in the corresponding entries in columns (3), (4) and (5) thereof;

TABLE

| Sl. No. | Medicines | Strength | Unit | Manufacturer & Marketing Company | Retail Price (Rs.) |
|---------|--|--|-----------|--|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Amoxycillin & Potassium clavulanate Tablets | Each Film coated tablet contains: Amoxycillin Trihydrate IP eq. to Amoxycillin 875 mg Potassium Clavulanate Diluted IP eq. to Clavulanic Acid 125 mg | 1 Tablet | M/s Medicef Pharma /M/s Cadila Pharmaceuticals Ltd. | 41.04 |
| 2 | Aspirin Gastro-resistant & Atorvastatin Capsules | Each hard gelatin capsule contains: Aspirin IP 75mg (As Gastro-resistant Pellets) Atorvastatin Calcium IP Eqv. to Atorvastatin 10mg (As Pellets) | 1 Capsule | M/s Synokem Pharmaceuticals Ltd. / M/s Alkem Laboratories Ltd. | 3.65 |

| Sl. No. | Medicines | Strength | Unit | Manufacturer & Marketing Company | Retail Price (Rs.) |
|---------|---|---|----------------|---|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 3 | Budesonide, Glycopyrronium & Formoterol fumarate dihydrate inhalation | Each actuation delivers : Budesonide IP 200 mcg Glycopyrronium Bromide ph. Eur.eq. to Glycopyrronium 12.5 mcg Formoterol fumarate Dihydrate IP 6 mcg | 1 Metered Dose | M/s Lupin Ltd. | 6.11 |
| 4 | Cefixime Oral Suspension | Each 5 ml of reconstituted suspension contains: Cefixime IP Equivalent to Cefixime Anhydrous 200 mg | 1 ml | M/s Alps Communication Pvt. Ltd./ M/s Galpha Laboratories Ltd. | 3.72 |
| 5 | Ceftriaxone, Disodium Edetate & Sulbactam powder for solution for Infusion | Each vial contains: Ceftriaxone Sodium IP eq. to Ceftriaxone 1000 mg Disodium Edetate IP 37 mg Sulbactam Sodium IP eq. Sulbactam 500 mg | 1 vial | M/s Protech Telelinks/ M/s Tyykem Pvt. Ltd. | 515.57 |
| 6 | Ceftriaxone, Disodium Edetate & Sulbactam powder for solution for Infusion | Each vial contains: Ceftriaxone Sodium IP eq. to Ceftriaxone 2000 mg Disodium Edetate IP 74 mg Sulbactam Sodium IP eq. Sulbactam 1000 mg | 1 vial | M/s Protech Telelinks/ M/s Tyykem Pvt. Ltd. | 1036.60 |
| 7 | Combipack of Ceftriaxone, Disodium Edetate and Sulbactam powder for solution for Infusion | Each Combi-pack contains: (A) Ceftriaxone, Disodium Edetate and Sulbactam powder for solution for infusion 1.5gm Each Vial Contains: Ceftriaxone sodium IP eq. to Ceftriaxone 1000mg Disodium Edetate IP 37mg Sulbactam Sodium IP Equivalent to Sulbactam 500mg B) Sterile water for injections IP 10ml Each ampoules contains : Water for injection IP 10ml | 1 vial | M/s BDR Pharmaceuticals International Pvt. Ltd. M/s Bluecross Laboratories Pvt. Ltd. | 447.00 |
| 8 | Combipack of Ceftriaxone, Disodium Edetate and Sulbactam powder for solution for Infusion | Each Combi-pack contains: (A) Ceftriaxone, Disodium Edetate and Sulbactam powder for solution for infusion 3.0 gm Each Vial Contains: Ceftriaxone sodium IP eq. to | 1 vial | M/s BDR Pharmaceuticals International Pvt. Ltd. M/s Bluecross Laboratories Pvt. Ltd. | 626.00 |

| Sl. No. | Medicines | Strength | Unit | Manufacturer & Marketing Company | Retail Price (Rs.) |
|---------|--|---|----------|---|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | Ceftriaxone 2000 mg Disodium Edetate IP 74 mg Sulbactam Sodium IP Equivalent to Sulbactam 1000 mg B) Sterile water for injections IP 20 ml Each ampoules contains : Water for injection IP 20 ml | | | |
| 9 | Cefuroxime Axetil & Potassium Clavulanate Tablets | Each Film coated tablet contains: Cefuroxime Axetil IP Eq. to Cefuroxime 500 mg Potassium clavulanate Diluted IP Eq. to Clavulanic Acid 125 mg | 1 Tablet | M/s Hetero Labs ltd./ M/s Troikaa Pharmaceuticals Ltd. | 61.84 |
| 10 | Ciprofloxacin & Dexamethasone Eye /Ear Drops | Ciprofloxacin Hydrochloride IP eq. to Ciprofloxacin 0.3% w/v Dexamethasone IP 0.1% w/v Bezalkonium Chloride Solution IP 0.02 % w/v (Preservative) | 1 ml | M/s Hanuchem Laboratories/ M/s Aristo Laboratories Pvt. Ltd. | 2.47 |
| 11 | Combikit of Clarithromycin Tablets, Esomeprazole Tablets and Amoxicillin Tablets | Composition: Each Strip Contains: A. Clarithromycin Tablets IP 2 Tablets Each Film Coated Tablet Contains: Clarithromycin IP 500 mg B. Esomeprazole Tablets IP 2 Tablets Each enteric coated Tablet Contains: Esomeprazole Magnesium Trihydrate IP Equivalent to Esomeprazole 40 mg C. Amoxicillin Tablets USP 2 Tablets Each Film Coated Tablet Contains: Amoxicillin Trihydrate IP Equivalent to Amoxicillin 1000 mg | 1 Tablet | M/s Malik Lifesciences Pvt. Ltd. / M/s Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 162.52 |
| 12 | Empagliflozin & Metformin Hydrochloride Tablets | Each film coated tablet Contains: Empagliflozin 12.5 mg | 1 Tablet | M/s Mediforce Healthcare Pvt. Ltd./ | 18.10 |

| Sl. No. | Medicines | Strength | Unit | Manufacturer & Marketing Company | Retail Price (Rs.) |
|---------|--|--|----------|--|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | Metformin Hydrochloride IP 500 mg | | M/s Mankind Prime Labs Pvt. Ltd. | |
| 13 | Empagliflozin & Metformin Hydrochloride (ER) Tablets | Each Film Coated Bilayered Tablet Contains: Empagliflozin 12.5mg Metformin Hydrochloride IP 1000mg (As Extended release) | 1 Tablet | M/s Pure and Cure Healthcare Pvt. Ltd./ M/s Blue Cross Laboratories Pvt. Ltd. | 10.80 |
| 14 | Empagliflozin & Metformin Hydrochloride Tablets | Each film coated tablet Contains: Empagliflozin 12.5 mg Metformin Hydrochloride IP 1000 mg | 1 Tablet | M/s Mediforce Healthcare Pvt. Ltd./ M/s Mankind Prime Labs Pvt. Ltd. | 19.64 |
| 15 | Empagliflozin, Linagliptin & Metformin (ER) Tablets | Each film coated tablet contains: Empagliflozin 10 mg, Linagliptin 5 mg, Metformin Hydrochloride IP 1000 mg (As Extended release) | 1 Tablet | M/s Pure & Cure Healthcare Pvt. Ltd. / M/s Aristo Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 16.97 |
| 16 | Empagliflozin, Linagliptin & Metformin (ER) Tablets | Each film coated tablet contains: Empagliflozin 25 mg, Linagliptin 5 mg, Metformin Hydrochloride IP 1000 mg (As Extended release) | 1 Tablet | M/s Pure & Cure Healthcare Pvt. Ltd. / M/s Aristo Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 20.54 |
| 17 | Sitagliptin, Glimepiride & Metformin Hydrochloride tablets | Each Film Coated Tablet Contains: Glimepiride IP 1 mg Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP Equivalent to Sitagliptin 50 mg Metformin Hydrochloride IP 500 mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals / M/s Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 12.98 |
| 18 | Sitagliptin, Glimepiride & Metformin Hydrochloride tablets | Each film coated tablet contains: Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP eq. to Sitagliptin 50 mg Glimepiride IP 1 mg Metformin Hydrochloride IP 500 mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals/ M/s Micro Labs Ltd. | 12.00 |

| Sl. No. | Medicines | Strength | Unit | Manufacturer & Marketing Company | Retail Price (Rs.) |
|---------|--|--|----------|---|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 19 | Sitagliptin, Glimepiride & Metformin Hydrochloride tablets | Each film coated tablet contains: Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP eq. to Sitagliptin 50 mg Glimepiride IP 1 mg Metformin Hydrochloride IP 500 mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals/ M/s Intas Pharmaceuticals Ltd. | 12.98 |
| 20 | Sitagliptin, Glimepiride & Metformin Hydrochloride Tablets | Each film coated tablet contains: Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP eq. to Sitagliptin 50mg, Glimepiride IP 1 mg, Metformin Hydrochloride IP 500mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals/ M/s Eris Lifesciences Ltd. | 12.98 |
| 21 | Sitagliptin, Glimepiride & Metformin Hydrochloride Tablets | Each film coated tablet contains: Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP eq. to Sitagliptin 50mg, Glimepiride IP 1 mg, Metformin Hydrochloride IP 500mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals/ M/s Lupin Ltd. | 12.98 |
| 22 | Sitagliptin, Glimepiride and Metformin Hydrochloride Tablets | Each film coated tablet contains: Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP eq. to Sitagliptin 50 mg Glimepiride IP 1 mg Metformin Hydrochloride IP 500 mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals/ M/s Mankind Pharma Ltd. | 12.98 |
| 23 | Sitagliptin, Glimepiride & Metformin Hydrochloride tablets | Each film coated tablet contains: Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP eq. to Sitagliptin 50 mg Glimepiride IP 2 mg Metformin Hydrochloride IP 500 mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals/ M/s Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 14.66 |
| 24 | Sitagliptin, Glimepiride & Metformin Hydrochloride tablets | Each film coated tablet contains: Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP eq. to Sitagliptin 50 mg Glimepiride IP 2 mg Metformin Hydrochloride IP 500 mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals/ M/s Micro Labs Ltd. | 14.00 |

| Sl. No. | Medicines | Strength | Unit | Manufacturer & Marketing Company | Retail Price (Rs.) |
|---------|--|--|-----------|--|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 25 | Sitagliptin, Glimepiride & Metformin Hydrochloride tablets | Each film coated tablet contains: Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP eq. to Sitagliptin 50 mg Glimepiride IP 2 mg Metformin Hydrochloride IP 500 mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals/ M/s Intas Pharmaceuticals Ltd. | 14.66 |
| 26 | Sitagliptin, Glimepiride & Metformin Hydrochloride Tablets | Each film coated tablet contains: Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP eq. to Sitagliptin 50mg, Glimepiride IP 2 mg, Metformin Hydrochloride IP 500mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals/ M/s Lupin Ltd. | 14.66 |
| 27 | Sitagliptin, Glimepiride & Metformin Hydrochloride Tablets | Each film coated tablet contains: Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP eq. to Sitagliptin 50 mg Glimepiride IP 2 mg Metformin Hydrochloride IP 500 mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals/ M/s Mankind Pharma Ltd. | 14.66 |
| 28 | Itraconazole Capsules (Supra- Bioavailable formulation) | Each hard gelatin capsule contains: Itraconazole IP 65 mg | 1 Capsule | M/s Ravenbhel Healthcare Pvt. Ltd/ M/s Intas Pharmaceuticals Ltd. | 11.45 |
| 29 | Levofloxacin Infusion | Each 100 ml contains: Levofloxacin Hemihydrate IP eq. to Levofloxacin 500 mg Dextrose (Anhydrous) IP 5% w/v | 1 ml | M/s Axa Parenterals Ltd./ M/s Aristo Laboratories Pvt. Ltd. | 1.46 |
| 30 | Linezolid injection | Each 100ml contains: Linezolid IP 200 mg, Dextrose Anhydrous IP 5% w/v | 1 ml | M/s Amanta Healthcare Ltd. / M/s Corona Remedies Pvt. Ltd. | 1.60 |
| 31 | Methylprednisolone Tablets | Each uncoated tablet contains: Methylprednisolone IP 8 mg | 1 Tablet | M/s Innova Captab Ltd. / M/s Troikaa Pharmaceuticals Ltd. | 5.22 |
| 32 | Moxifloxacin Eye Drops | Moxifloxacin Hydrochloride IP Eq. to Moxifloxacin 0.5% w/v Benzalkonium Chloride Solution IP 0.02% v/v (as preservative) | 1 ml | M/s Hanuchem Laboratories / M/s Aristo Laboratories Pvt. Ltd. | 36.26 |

| Sl. No. | Medicines | Strength | Unit | Manufacturer & Marketing Company | Retail Price (Rs.) |
|---------|---|---|----------|---|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | Sterile aqueous buffered vehicle | | | |
| 33 | Myo-Inositol,D-Chiro Inositol & Vitamin D3 Powder | Each 5g Sachet contains: Vitamin D3 (Stabilized form) 1000 IU, Myo-Inositol IP 2000 mg, D-Chiro Inositol 50 mg | 1 gm | M/s Safetab Life Science/ M/s Corona Remedies Pvt. Ltd. | 9.02 |
| 34 | Paracetamol bilayered sustained release tablets | Each uncoated bilayered sustained release tablet contains: Paracetamol IP (as Immediate release) 300 mg Paracetamol IP (as sustained release) 700 mg | 1 Tablet | M/s Pure and cure Healthcare Pvt. Ltd./ M/s Glaxosmithkline Asia Pvt. Ltd. | 4.71 |
| 35 | Paracetamol Oral Suspension | Each 5 ml Contains: Paracetamol IP 500 mg | 1 ml | M/s Naxpar Pharma Pvt. Ltd./ M/s Micro Labs Ltd. | 0.66 |
| 36 | Paracetamol Oral Suspension | Each 5ml contains: Paracetamol IP 500mg | 1 ml | M/s Pure and Cure Healthcare Pvt. Ltd./ M/s Alkem Laboratories Ltd. | 0.66 |
| 37 | Ibuprofen & Paracetamol suspension | Each 5 ml contains: Ibuprofen IP 100 mg Paracetamol IP 162.5 mg | 1 ml | M/s Mascot Health Series Pvt. Ltd./ M/s Alembic Pharmaceuticals Ltd. | 0.53 |
| 38 | Mefenamic Acid & Paracetamol suspension | Each 5 ml contains: Mefenamic Acid IP 100 mg Paracetamol IP 250 mg | 1 ml | M/s Mascot Health Series Pvt. Ltd./ M/s Alembic Pharmaceuticals Ltd. | 0.94 |
| 39 | Paracetamol, Phenylephrine Hydrochloride & Chlorpheniramine Maleate Tablets | Each uncoated tablet contains: Paracetamol IP 500 mg Phenylephrine Hydrochloride IP 10 mg Chlorpheniramine Maleate IP 2 mg | 1 Tablet | M/s East African (India) Overseas / M/s Aristo Laboratories Pvt. Ltd. | 5.25 |
| 40 | Polmacoxib & Paracetamol Tablets | Each uncoated tablet contains: Polmacoxib IH 2 mg, Paracetamol IP 325 mg | 1 Tablet | M/s Hetero Labs Ltd. / M/s Intas Pharmaceuticals Ltd. | 15.39 |
| 41 | Aceclofenac, Paracetamol & Trypsin Chymotrypsin Tablets | Each enteric coated tablet contains: Proteolytic enzymes Trypsin & Chymotrypsin in the ratio of Approximately 6:1 and | 1 Tablet | M/s Akums Drugs & pharmaceuticals Ltd / M/s Aristo Pharmaceutical Pvt. Ltd | 15.18 |

| Sl. No. | Medicines | Strength | Unit | Manufacturer & Marketing Company | Retail Price (Rs.) |
|---------|---|---|-----------|---|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | provides enzymatic activity Eq. to 1,50,000 Armour units Aceclofenac IP 100 mg Paracetamol IP 325 mg | | | |
| 42 | Trastuzumab for Injection | Each Lyophilized vial contains: Trastuzumab (In House) (375 mg) - α , α Trehalose dihydrate Ph. Eur. (340.91 mg) - L-Histidine HCl monohydrate Ph. Eur. (8.44 mg) - L-Histidine Ph. Eur. (5.45 mg) - Polysorbate 20 IP (1.53 mg) | 1 vial | M/s Reliance Life Sciences Pvt. Ltd. | 11966.64 |
| 43 | Vitamin D3 (Cholecalciferol) Drops | Each ml contains: Cholecalciferol (Vitamin D3) IP 800 IU | 1 ml | M/s Indchemie Health Specialities Pvt. Ltd. | 6.11 |
| 44 | Zolpidem Tartrate & Melatonin tablets | Each film coated tablet contains: Zolpidem Tartrate IP 5 mg Melatonin BP 3 mg | 1 Tablet | M/s Windlas Biotech Ltd./ M/s Intas Pharmaceuticals Ltd. | 6.62 |
| 45 | Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Boric Acid & Hydroxypropylmethyl Cellulose Eye Drops | Composition: Phenylephrine HCl IP 0.12 % w/v Chlorpheniramine Maleate IP 0.2 % w/v Boric Acid IP 1.25 % w/v Hydroxypropylmethyl Cellulose IP 0.3 % w/v Benzalkonium Chloride IP 0.01 % w/v | 1 ml | M/s Appasamy Ocular Devices Pvt. Ltd./ M/s Intas Pharmaceuticals Ltd. | 7.63 |
| 46 | Methylcobalamin, Alpha Lipoic Acid, Pyridoxine Hydrochloride & Folic Acid Capsules | Each hard gelatin capsule contains : Methylcobalamin IP 1500 mcg Alpha Lipoic Acid IP 100 mg Pyridoxine Hydrochloride IP 3 mg Folic Acid IP 1.5mg | 1 Capsule | M/s East African (India) Overseas/ M/s Softdeal Pharmaceutical Pvt. Ltd. | 14.64 |
| 47 | Zolpidem Tartrate & Melatonin tablets | Each film coated tablet contains: Zolpidem Tartrate IP 10 mg Melatonin BP 3 mg | 1 Tablet | M/s Windlas Biotech Ltd./ M/s Intas Pharmaceuticals Ltd. | 9.02 |

| Sl. No. | Medicines | Strength | Unit | Manufacturer & Marketing Company | Retail Price (Rs.) |
|---------|---|---|----------------|---|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 48 | Myo-Inositol, D-Chiro Inositol & Vitamin D3 powder | Each 5g Sachet contains: Vitamin D3 IP (Water soluble) 1000 IU Myo-Inositol IP 2000 mg D-Chiro Inositol 50 mg | 1 gm | M/s Safetab Life Science / M/s Sun Pharma Laboratories Limited | 9.02 |
| 49 | Metoprolol succinate (ER), Amlodipine & Telmisartan Tablets | Each film coated bilayered tablet contains: Metoprolol Succinate IP 23.75 mg eq. to Metoprolol Tartrate 25 mg (As extended release) Amlodipine Besilate IP eq. to Amlodipine 5 mg Telmisartan IP 40 mg | 1 Tablet | M/s Ajanta Pharma Ltd. | 12.96 |
| 50 | Dehydroepiandrosterone (DHEA)(Micronised) & Folic Acid Capsules | Each hard gelatin capsule contains: Dehydroepiandrosterone (DHEA)(Micronised) 25 mg, Folic Acid IP 1.5 mg | 1 Capsule | M/s Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd./ M/s Sun Pharma Laboratories Ltd. | 14.08 |
| 51 | Glycopyrronium & Formoterol Fumarate inhaler | Each actuation delivers: Glycopyrronium (As Glycopyrrolate IP) 12.5mcg Formoterol Fumarate Dihydrate IP 6mcg | 1 metered dose | M/s Cipla Ltd. | 4.08 |
| 52 | Empagliflozin, Sitagliptin & Metformin Hydrochloride (ER) Tablets | Each film coated bilayer tablet contains: Empagliflozin 10 mg, Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP equivalent to Sitagliptin 100 mg, Metformin Hydrochloride IP 1000 mg (as extended release) | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals / M/s Corona Remedies Pvt. Ltd. | 31.60 |
| 53 | Empagliflozin, Sitagliptin & Metformin (ER) tablets | Each Film Coated Bilayer Tablet contains: Empagliflozin 10 mg Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP Equivalent to Sitagliptin 100 mg Metformin Hydrochloride IP (As Extended Release) 1000 mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals / M/s Zydus Healthcare Limited | 31.60 |
| 54 | Empagliflozin, Sitagliptin & Metformin Hydrochloride (ER) Tablets | Each Film Coated bilayer Tablet Contains: Empagliflozin 10 mg Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP Equivalent to Sitagliptin 100mg Metformin | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals / M/s Alkem Laboratories Ltd. | 31.60 |

| Sl. No. | Medicines | Strength | Unit | Manufacturer & Marketing Company | Retail Price (Rs.) |
|---------|---|--|----------|---|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | Hydrochloride IP (As Extended Release) 1000mg | | | |
| 55 | Empagliflozin ,Sitagliptin & Metformin Hydrochloride (ER) Tablets | Each film coated bilayer tablet contains: Empagliflozin 10mg Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP equivalent to Sitagliptin 100mg Metformin Hydrochloride IP (As extended release) 1000mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals / M/s Lupin Ltd | 25.00 |
| 56 | Empagliflozin, Sitagliptin & Metformin Hydrochloride (ER) Tablets | Each Film Coated bilayer Tablet Contains: Empagliflozin 10 mg Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP Equivalent to Sitagliptin 100mg Metformin Hydrochloride IP (As Extended Release) 1000mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals / M/s Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 22.50 |
| 57 | Empagliflozin, Sitagliptin & Metformin Hydrochloride (ER) Tablets | Each Film Coated bilayer Tablet Contains: Empagliflozin 10 mg Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP Equivalent to Sitagliptin 100mg Metformin Hydrochloride IP (As Extended Release) 1000mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals / M/s Mankind Pharma Ltd. | 31.60 |
| 58 | Empagliflozin, Sitagliptin & Metformin Hydrochloride (ER) Tablets | Each Film Coated bilayer Tablet Contains: Empagliflozin 10 mg Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP Equivalent to Sitagliptin 100mg Metformin Hydrochloride IP (As Extended Release) 1000mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals / M/s Intas Pharmaceuticals Ltd. | 25.00 |
| 59 | Empagliflozin, Sitagliptin & Metformin Hydrochloride (ER) Tablets | Each film coated bilayer tablet contains: Empagliflozin 10 mg, Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP equivalent to Sitagliptin 100 mg, Metformin Hydrochloride IP 1000 mg (as extended release) | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals / M/s Eris Lifesciences Ltd. | 31.60 |
| 60 | Empagliflozin, Sitagliptin & Metformin | Each film coated bilayer tablet contains: Empagliflozin 10 mg, Sitagliptin Phosphate | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals / M/s Cipla Ltd. | 22.00 |

| Sl. No. | Medicines | Strength | Unit | Manufacturer & Marketing Company | Retail Price (Rs.) |
|---------|---|--|----------|--|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Hydrochloride (ER) Tablets | Monohydrate IP equivalent to Sitagliptin 100 mg, Metformin Hydrochloride IP 1000 mg (as extended release) | | | |
| 61 | Empagliflozin, Sitagliptin & Metformin Hydrochloride (ER) Tablets | Each Film Coated bilayer Tablet Contains: Empagliflozin 10 mg Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP Equivalent to Sitagliptin 100mg Metformin Hydrochloride IP (As Extended Release) 1000mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals / M/s Sun Pharmaceuticals Industries Ltd. | 26.00 |
| 62 | Empagliflozin, Sitagliptin & Metformin Hydrochloride (ER) Tablets | Each film coated bilayer tablet contains: Empagliflozin 25 mg, Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP equivalent to Sitagliptin 100 mg, Metformin Hydrochloride IP 1000 mg (as extended release) | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals / M/s Cipla Ltd. | 23.00 |
| 63 | Empagliflozin, Sitagliptin & Metformin Hydrochloride (ER) Tablets | Each film coated bilayer tablet contains: Empagliflozin 25 mg, Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP equivalent to Sitagliptin 100 mg, Metformin Hydrochloride IP 1000 mg (as extended release) | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals / M/s Eris Lifesciences Ltd. | 35.19 |
| 64 | Empagliflozin, Sitagliptin & Metformin Hydrochloride (ER) Tablets | Each Film Coated bilayer Tablet Contains: Empagliflozin 25mg Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP Equivalent to Sitagliptin 100mg Metformin Hydrochloride IP (As Extended Release) 1000mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals / M/s Mankind Pharma Ltd. | 35.19 |
| 65 | Empagliflozin, Sitagliptin & Metformin Hydrochloride (ER) Tablets | Each Film Coated bilayer Tablet Contains: Empagliflozin 25 mg Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP Equivalent to Sitagliptin 100mg Metformin Hydrochloride IP (As Extended Release) 1000mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals / M/s Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 25.00 |
| 66 | Empagliflozin, Sitagliptin & Metformin | Each Film Coated bilayer Tablet Contains: | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals / M/s | 30.00 |

| Sl. No. | Medicines | Strength | Unit | Manufacturer & Marketing Company | Retail Price (Rs.) |
|---------|---|---|----------|---|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Hydrochloride (ER) Tablets | Empagliflozin 25 mg Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP Equivalent to Sitagliptin 100mg Metformin Hydrochloride IP (As Extended Release) 1000mg | | Sun Pharmaceuticals Industries Ltd. | |
| 67 | Empagliflozin, Sitagliptin & Metformin Hydrochloride (ER) Tablets | Each Film Coated bilayer Tablet Contains: Empagliflozin 25 mg Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP Equivalent to Sitagliptin 100mg Metformin Hydrochloride IP (As Extended Release) 1000mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals / M/s Intas Pharmaceuticals Ltd. | 26.00 |
| 68 | Empagliflozin, Sitagliptin & Metformin Hydrochloride (ER) Tablets | Each Film Coated bilayer Tablet Contains: Empagliflozin 25mg Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP Equivalent to Sitagliptin 100mg Metformin Hydrochloride IP (As Extended Release) 1000mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals / M/s Alkem Laboratories Ltd. | 34.00 |
| 69 | Empagliflozin, Sitagliptin & Metformin Hydrochloride (ER) Tablets | Each film coated bilayer tablet contains: Empagliflozin 25 mg Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP equivalent to Sitagliptin 100mg Metformin Hydrochloride IP (As extended release) 1000mg | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals / M/s Lupin Ltd | 30.00 |
| 70 | Empagliflozin, Sitagliptin & Metformin (ER) tablets | Each Film Coated Bilayer Tablet contains: Empagliflozin 25 mg Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP Equivalent to Sitagliptin 100 mg Metformin Hydrochloride IP (As Extended Release) 1000 mg. | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals / M/s Zydus Healthcare Limited | 35.19 |
| 71 | Empagliflozin, Sitagliptin & Metformin Hydrochloride (ER) Tablets | Each film coated bilayer tablet contains: Empagliflozin 25mg, Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP equivalent to Sitagliptin 100mg, Metformin Hydrochloride IP 1000mg (as extended release) | 1 Tablet | M/s Exemed Pharmaceuticals / M/s Corona Remedies Pvt. Ltd. | 35.19 |

Note:

- (a) The manufacturer of above-mentioned formulations i.e., “new drug” under paragraph 2(1)(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (6) of the table hereinabove.
- (b) The manufacturer may add Goods and Services Tax only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in column (6) of the above said table.
- (c) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (6) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form–V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.
- (d) As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.
- (e) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturer / marketer as mentioned above i.e. who have applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfilment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturer/marketing companies.
- (f) In case the retail price of any of the aforesaid formulations is not complied with, as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- (g) Consequent to the fixation of retail price of such formulation as specified in column (2) of the above table with the strength and name of Manufacturer & Marketing Companies specified in the corresponding entries in Column (3) & (5) thereof, the price order(s) fixing the retail price of the formulation with specified strength for that Manufacturer & Marketing Companies as specified in corresponding entries in Column (2), (3) and (5) thereof, if any, issued prior to this notification, stand(s) superseded.

[PN/266/134/2025/F/F. No. 8(134)/2025/D.P./NPPA-Div.-II]

MAHAVEER SAINI, Dy. Director